

जातीय समानता को बढ़ावा देने के मौजूदा और योजनाबद्ध उपाय

सिविल सहायता सेवा (सिविल एड सर्विस)

सिविल सहायता सेवा (CAS) एक वर्दीधारी और अनुशासित, सरकार द्वारा वित्तपोषित, सहकारी सेवा है जो आपातकालीन कर्तव्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्तरदायित्व लेती है और हांगकांग के पूर्णकालिक आपातकालीन बलों पर दबाव को दूर करने में मदद करती है। समुदाय में विविध जाति के लोगों के एकीकरण की सुविधा के लिए सक्रिय कदम उठाए गए हैं जो समाज में उनकी भागीदारी और योगदान को सुविधाजनक बना सकते हैं और उनकी संभावित क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं।

CAS विशेष प्रतिभा योजना (STS)

- | | |
|----------------|--|
| संबंधित सेवाएं | <ul style="list-style-type: none">• अपने कैरियर और तरक्की के साथ-साथ उनकी सामाजिक भागीदारी के लिए विविध जाति के लोगों को परिष्कृत हुई गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना। |
| मौजूदा उपाय | <ul style="list-style-type: none">• विविध जाति के लोगों को CAS में वयस्क स्वयंसेवक सदस्य और कैडेट के रूप में भर्ती करने के लिए ब्रीफिंग और भर्ती वार्ता करना और उन्हें CAS में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अनुशासित बल में पूर्णकालिक रोजगार में बदलने का बेहतर मौका दे सकता है।• CAS में भर्ती होने के शीर्ष सुझावों पर अंग्रेजी, चीनी और अन्य भाषाओं में प्रकाशन और तथ्य पत्रक।• CAS में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होने के लिए, CAS में कार्य अनुभव के लिए और आवेदनों के साथ मदद के लिए CAS से प्रारंभिक संपर्क बनाने में सक्षम करने के लिए स्कूल छोड़ने वालों के साथ लघु सत्र और कार्यशालाएं।• विविध जाति के नव-शामिल वयस्क सदस्यों के लिए अनुभवी परामर्शदाता योजना।• ब्रीफिंग सत्र, मुलाकातें और बैठकों के माध्यम से माता-पिता और शिक्षकों के साथ करीबी संपर्क।• विविध जाति के लोगों के समुदाय और धार्मिक नेताओं के साथ संपर्क CAS को विविध जाति के लोगों के रोजगार और सामाजिक |

एकीकरण में कठिनाइयों और चिंताओं से अवगत कराते हैं।

- सामंजस्य भावना को विकसित करने के लिए विविध जाति के युवाओं के लिए गतिविधियाँ।
 - CAS नियमित रूप से उपायों की समीक्षा करेगा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सामग्री को समृद्ध करने के लिए कर्मचारियों, अन्य सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों से प्रतिपुष्टि एकत्र करेगा।
- भविष्य के काम का मूल्यांकन
- सेकन्डरी स्कूलों से विविध जाति के अधिक कैडेटों को भर्ती करने के लिए अधिक गहन कार्य ताकि विविध जाति के युवा आत्मनिर्भरता, संसाधनशीलता, सहनशीलता, दृढ़ता और समुदाय को सेवा की भावना विकसित करने के लिए अनुशासन-उन्मुख, साहसी और नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
 - विविध जाति के लोगों के लिए लंबी पैदल यात्रा (हाइकिंग) सुरक्षा गतिविधियों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करके पैदल यात्रा सुरक्षा के व्यापक प्रचार।
 - विविध जाति के लोगों के लिए आपातकालीन तैयारियों और स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर (AED) और कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन (CPR) का उपयोग पर कार्यशालाएं।
 - कर्मचारियों के लिए जातीय समानता के मुद्दों पर उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए CAS अन्य सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के साथ संपर्क करेगा।

पूछताछ

जातीय समानता को बढ़ावा देने के मौजूदा और योजनाबद्ध उपायों से संबंधित पूछताछ क लिए, कृपया धनम्रुधित चैनल्स के माध्यम से (श्री WONG Wing-kwong), वररष्ठ संचालिन और प्रधिक्षण अधिकारी (Headquarters) से संपकक करें –

टेलीफोन नंबर : 2805 6020
फैक्स नंबर : 2576 3021
ई-मेल : casenq@cas.gov.hk
डाक का पता : General Office, 4/F, Civil Aid Service Headquarters, 8 To Wah Road, Yau Ma Tei, Kowloon.

मई 2023